



Plot No. 2-B, Sector - 126, NOIDA-201304, Distt. Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh), Tel.: +91 (120) 6860000, 3090100, 3090200 Fax: +91 (120) 3090111, 3090211, E-mail: iglho@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com

IGL/SE/2025-26/44

5th September, 2025

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 500201 Symbol: INDIAGLYCO

Sub: Notice of 41st Annual General Meeting, Annual Report for FY 2024-25, E-voting

information and Book Closure - Newspaper Advertisement

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, kindly find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisement w.r.t. completion of dispatch of the Notice of 41st Annual General Meeting and Annual Report for FY 2024-25 through e-mail to the eligible shareholders of the Company, Book Closure and E-voting information in the following newspapers published on 5th September, 2025:

- 1. Financial Express (All Editions) in English; and
- 2. Uttar Ujala (Nainital Edition) in Hindi.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly, For **India Glycols Limited** 

Ankur Jain Head (Legal) & Company Secretary Encl : A/a

CIN: L24111UR1983PLC009097

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

**FINANCIAL EXPRESS** 

# 16

# ZENLABS ETHICA LIMITED

Read. Office: Plot No. 194-195, 310 floor, Industrial area, Phase II, Ram Darbar, Chandigarh - 160002. Tel: 0172-4651105, Email: queries@zenlabsethica.com

CIN: L74900CH1993PLC033112 | Website: www.zenlabsethica.com

### INFORMATION REGARDING 32ND ANNUAL GENERAL MEETING OF ZENLABS ETHICA LIMITED AND E-VOTING INFORMATION.

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Monday, September 29th, 2025 at 12:00 PM (IST) at the registered office of the Company situated at Plot No. 194 -195, 3rd Floor, Industrial Area, Phase II, Ram Darbar, Chandigarh -160002, to transact the business, as set out in the Notice of AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act), rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations") read with various circulars including General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, as extended from time to time and last extended vide General Circular No. 9/2024 dated September 19, 2024, Issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI circular no. SEBVHO/OFD/OFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 (hereinafter collectively referred to as "Circulars) and other applicable laws.

The Notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent by electronic mode, additionally, as per Regulation 36(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is sending letter to the shareholders, whose email IDs are not registered with the company/RTA/DP providing weblink from where annual report can be accessed. The copy of Notice of the 32nd AGM and Annual Report 2024-25 will also be available on Company's website at zenlabsethica.com.

The physical copies of the Notice along with Annual Report shall be sent to those Members who request for the same at gueries@zenlabsethica.com mentioning their Folio no. /DP ID and Client ID.

The Company shall provide remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on the resolutions that will be set forth in the Notice. The remote e-voting period shall commence at Friday, 26th day of September, 2025 (9.00 a.m. IST) and will end on Sunday, the 28th day of September, 2025 (5.00 p.m. IST). Additionally, the Company shall also provide the facility of voting during the AGM.

The instructions for the manner of participation in remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

### Manner of casting vote(s) through e-voting:

Date: 04.09.2025

The manner for remote e voting and e-voting at AGM by the Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and who have not registered their e-mail address shall be provided in the Notice.

### Manner of registering/updating e-mail address:

The Members holding Equity Shares of the Company in Dematerialized Form and who have not registered their email addresses and mobile numbers with the Depositories through Depository Participant ('DP'), are requested to register their e-mail address, by following the procedure prescribed by the Depository Participant and the Members holding shares in Physical Form are requested to update the KYC details in prescribed Form No ISR-1 and other relevant forms with Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), M/s Bigshare Services Private Limited. Members holding share(s) in electronic mode are requested to register/update their e-mail addresses in respect of demat holdings with the respective DPs by following the procedure prescribed by the DPs for receiving all Memberrelated communications from the Company.

For any query on the above matter, shareholders of the company are requested to contact: M/s Bigshare Services Pvt. Ltd. Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093 Tel No: 022 - 40430200 / 62638200 E-mail: infor@bigsahreonline.com

Members are requested to carefully read the Notice and in particular, manner of casting vote through remote evoting or e-voting at the AGM

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable Circulars.

For Zenlabs Ethica Limited

Manju Bala

Company Secretary & Compliance Officer Place: Chandigarh



### EMBASSY DEVELOPMENTS LIMITED (formerly Equinox India Developments Limited and earlier Indiabulls Real Estate Limited)

(CIN: L45101HR2006PLC095409)

Registered Office: Office No 01-1001, WeWork, Blue One Square, Udyog Vihar, Phase 4 Rd, Gurugram-122016 E-mail: ir@embassyindia.com, Tel: 0124- 4609559; Website: www.embassyindia.com

### NOTICE OF 19™ ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), rules made the reunder and the Securities

and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("SEBI Listing" Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") ("Relevant Circulars"), Notice is hereby given that the 19" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Embassy Developments Limited (formerly Equinox India Developments Limited and earlier Indiabulls Real Estate Limited) ("the Company") will be held on Friday, September 26, 2025, at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as stated in the notice dated August 26, 2025, convening the said AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company at Gurugram, Haryana.

In compliance with the above relevant Circulars, the Notice convening 19th AGM and Annual Report for the financial year 2024-2025 ("Annual Report") have been sent, through email on September 04, 2025, to those members whose e-mail address is registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participants ("DPs").

Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a communication containing the web link, QR code, and detailed access path to the AGM Notice and Annual Report has been separately sent to the Members whose email addresses are not so registered. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the

procedure prescribed in the AGM Notice The aforesaid documents are also available on the websites of the Company, RTA and Stock Exchanges at

www.embassyindia.com. https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Notice is further given, pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 20, 2025 to Friday, September 26, 2025 (both days inclusive) for annual closing for the purpose of 19" AGM.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and the Relevant Circulars, the Company is providing the facility to its members to cast their votes electronically on the resolutions stated in the AGM Notice and has availed the services of KFin Technologies Limited ("KFintech/RTA") for providing VC/OAVM and e-voting facility. The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting is provided in the Notice convening the AGM. The Notice also contains instructions/ details regarding the process for obtaining login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or RTA or their respective DPs.

Further, it is informed that only a person whose name is recorded as on Friday, September 19, 2025 ("Cut-off date"), in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, shall be entitled to avail facility of remote e-voting or e-voting at AGM ("Insta-poll").

Important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facility are provided below:

Link for VC https://emeetings.kfintech.com/ Link for remote e-voting For Individual members:

THIS IOI LEMOTE 6-AOTHĀ	For mulvidual members.				
To be stored the control of the cont	https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL)				
	https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat mode with CDSL)				
	For non-Individual members and members holding shares in physical form: https://evoting.kfintech.com				
Cut-off date for determining the Members entitled to vote through remote e-voting or insta-poll					g or shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share
Commencement of remote e-voting period	Tuesday, September 23, 2025 at 10:00 A.M.				
End of remote e-voting period	Thursday, September 25, 2025 at 05:00 P.M.				
Light the overall place with subtractive transfer and applied (AMCE) and the LEE Company of the	The property and a supplementation of the property of the prop				

Once the vote on a resolution is cast by the Member(s), they shall not be allowed to change/ modify it subsequently. The remote evoting shall be disabled by KFintech at 05:00 P.M. on September 25, 2025 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting. However, to enable the Members, who have not cast their vote through remote e-voting, Insta-Poll facility will also be made available during the AGM. Further, the Members who have casted their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA/DPs or the persons who becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cut-off date i.e. September 19, 2025 and the members who have forgotten the User ID and Password can obtain/ generate the User ID and Password in the manner as mentioned in the AGM Notice and can cast their vote through remote e-voting or through Insta-Poll during the AGM. Detailed instructions are provided in the AGM Notice, which is available on the website of the Company viz. www.embassyindia.com and also on the website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and at the website of KFintech at https://evoting.kfintech.com.

All documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement are available on the website of the Company for inspection by the Members.

# Manner of registering/updating e-mail address:

Place: Gurugram

Date: September 4, 2025

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of Company and RTA at www.embassyindia.com/agm-notice and https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx, respectively) duly filled and signed along with the supporting documents to KFin Technologies Limited, Selenium Building Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India -500 032

b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address, are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participant(s), where they maintain their demat accounts

Ms, Neha Sharma (Membership No. F13072), Proprietor of M/s. Neha S & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer in accordance with the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for the e-voting process.

In case of any query/ grievance(s) in connection with attending the AGM through VC/OAVM or e-voting, members may contact Mr. P.S.R.C.H. Murthy, Sr. Manager - RIS, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No.: 1800-309-4001; E-mail id: murthy.psrch@kfintech.com or evoting@kfintech.com

For Embassy Developments Limited

By Order of the Board

Vikas Khandelwal

Company Secretary

यूको बैंक 阁 UCO BANK Honours Your Trust (A Govt. of India Undertaking)

UCO BANK, Head Office - I Risk Management Department 1st Floor, 10 BTM Sarani, Kolkata-700001 NOTICE INVITING TENDER

General Manager

Risk Management Department

(Deputy General Manager)

DIT-Procurement & Infrastructure

UCO Bank Invites tender for the following item through GeM Portal Hiring of Consultant for ESG & Climate Risk Management for the Bank. For any details, please refer to https://www.ucobank.com & https://gem.gov.in.

Date:- 05.09.2025 Head Office – II DIT - Procurement & Infrastructure

यूको बैंक 🚱 UCO BANK Honours Your Trust

Date: 05.09.2025

3 & 4, DD Block, Sector - 1, Salt Lake, Kolkata-700064 NOTICE INVITING TENDER

CO Bank Invites tender for the following items through GeM Portal: Supply, Implementation and Management of Centralized Change Log Management Solution Selection of vendor for Facility Management Services of Bank's Active Directory, Centralized Antivirus Solution For any detail, please refer to https://www.ucobank.com & https://gem.gov.in

# **INDIA GLYCOLS LIMITED**

CIN: L24111UR1983PLC009097 Road Off.- A-1, Industrial Area, Bazzour Road, Kashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar, Ultarakhand. Phone: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535

E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com; Website: www.indiaglycols.com Notice of 41st Annual General Meeting,

E-Voting Information and Book Closure Notice is hereby given that the 41\* Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

India Glycols Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 30th September, 2025 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business as set out in the Notice convening the 41st AGM. The AGM will be held through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with Circular Nos. 20/2020, 02/2021, 19/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 dated 5th May, 2020, 13h January, 2021, 8h December, 2021, 5h May, 2022, 28h December, 2022, 25h September, 2023 and 19th September, 2024, respectively, read together with circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively refer as "MCA Circulars") and Circular Nos, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 and SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133, dated 12\* May, 2020, 15th January, 2021, 13th May, 2022, 5th January, 2023, 7th October, 2023 and 3rd October, 2024, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"). The Deemed venue for AGM shall be the Registered office i.e. A-1 Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur-244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 41st AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 which, inter-alia, comprises Audited financial statements (including the consolidated financial statements) of the Company for the financial year ended 31st March, 2025, Auditor's and Board's report thereon has been sent only by email to all those Members who have registered their e-mail addresses with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or their respective Depository Participant ("DP") which was completed on Thursday, 4" September, 2025. Additionally, in compliance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a letter containing web-link, including the exact path, where the Notice and Annual Report for FY 2024-25 can be accessed, has been sent to all those shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participants. The Notice of the 41st AGM and Annual Report is also available on the Company's website at www.indiaglycols.com. website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and the website of Stock Exchanges, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Members, who do not receive the Notice of 41" AGM and Annual Report, may download it from the Company's website or write to the Company Secretary at compliance.officer@indiaglycols.com.

Further, Members may directly access the Annual Report for FY 2024-25 at the following link:

http://www.indiaglycols.com/wp-content/uploads/annual-report-2024-25.pdf. Members whose e-mail ID's are not registered may get the same registered by following below instruction, in order to obtain Annual Report for the Financial Year 2024-25:

Members holding shares in physical mode are requested to register/update their email addresses by writing to RTA namely, MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180, 3rd Floor, DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 or e-mail at admin@mcsregistrars.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, self-attested copy of Aadhar and copy of share certificate

Demat Holding Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses by following the process mentioned above under- Physical Holding and send 16 digit DPID & Client ID in place of Folio No. along with scanned copy of self-attested Client Master copy or consolidated Demat

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 24th September, 2025 to Tuesday, the 30th September, 2025 (both days inclusive) to determine the entitlement of the shareholders for the purpose of payment of dividend for the financial year ended 31" March, 2025 and the AGM The Board of Directors of the Company at its meeting held on 16th May, 2025 had recommended a dividend at the rate of 100% of the face value of each equity share for the FY 2024-25. At the time, the face value of each equity share was Rs. 10/-Subsequently, the Board of Directors at its meeting held on 30th May, 2025 approved the sub-division/split of the equity share having face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, into 2 (Two) equity shares having face value of Rs. 5/- (Rupees Five only) each, subject to the shareholders approval which was obtained on 22th July, 2025. Accordingly, the divided for FY 24-25 if declared at the AGM, the shareholders would receive the same equivalent to 100% of the revised face value i.e. Rs. 5/- per equity shares. The dividend will be paid within 30 days from the date of the ensuing AGM of the Company to all those (a) beneficial owners holding shares in electronic form, as per the beneficial ownership data made available to the Company by National Securities Depository Limited ("NSDL") and the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Tuesday, 23rd September, 2025 (b) holding shares in physical form, after giving effect to all the valid share transmission or transposition request lodged with the Company/RTA, 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor Okhla Industrial Area, Phase - 1 New Delhi - 110020 on or before Tuesday, 23rd September, 2025.

Further, in pursuance to the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Members, therefore, the Company is required to deduct tax at source at the time of making payment of dividend at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof as well as our detailed communication sent to the Members through e-mail which is available at https://www.indiaglycols.com/wp-content/uploads/Communication-inrespect-to-Deduction-of-Tax-at-source-on-Dividend-dated-20.08.2025.pdf.

Pursuant to MCA General Circular 20/2020 dated 5th May, 2020 Companies are directed to credit the dividend of the shareholders directly to the bank accounts of the shareholders using Electronic Clearing Service. Further, effective from 1st April, 2024. SEBI has mandated that the shareholders, who hold shares in physical mode and who have not updated PAN and KYC details in their folios shall, inter-alia, be eligible to get dividend only through electronic mode after updating PAN and KYC details in their folios. Accordingly, Members holding shares in physical form are requested to provide/ update their PAN and KYC details with the RTA in prescribed forms as available on the Company's website at www.indiaglycois.com. Members holding shares in electronic form are requested to update their KYC details and Bank mandate(s) with their respective Depository Participants.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and applicable rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM and e-voting during the AGM in respect of businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The AGM notice inter-alia, mentions the process and manner of remote e-voting and e-voting during AGM and instructions for participating in the AGM along with the instructions with regard to login credential for Members holding shares in physical form or in demat forms who have not registered their e-mail addresses either with the Company/ RTA/ DP. The voting rights by remote e-voting/e-voting of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e. Tuesday 23rd September, 2025.

All the Members are informed that (a) the business as set out in the notice of 41" AGM may be transacted through voting by electronic means; (b) the remote e-voting shall commence on Friday, the 26th September, 2025 at 9:00 A.M.; (c) the remote e-voting shall end on Monday, the 29th September, 2025 at 5:00 P.M.; (d) the cut-off date for reckoning the rights of Members for remote e-voting/ e-voting is Tuesday, the 23rd September, 2025; (e) the remote e-voting shall not be allowed after 5:00 P.M. on Monday, the 29th September, 2025; (f) e-voting shall also be made available during the 41° AGM; (q) the Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during the 41st AGM; (h) person whose name is recorded in the register of Members/Beneficial Owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e Tuesday, 23rd September, 2025 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM; (i) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the notice has been sent electronically and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 23" September, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or admin@mcsregistrars.com; and (j) in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members at the 'downloads' section of www.evoting.nsdl.com or contact. Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051, at the designated e-mail address: evoting@nsdl.com call on No. 022- 48867000 who will also address the grievances connected with the electronic voting. Members may also e-mail to the Company Secretary at compliance officer@indiaglycols.com or send a letter at the Head office at Plot No. 2-B, Sector 126, Noida- 201304, Uttar Pradesh

The Company has appointed Shri Ashish Saxena (C.P. No.7096) of Ashish Saxena & Co., Company Secretaries, Ghaziabad as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in fair and transparent manner.

Place: Noida, U.P.

Dated: 4th September, 2025

zensar An **RPG** Company

# Zensar Technologies Limited

Registered Office: Zensar Knowledge Park, Plot No. 4, MIDC, Kharadi, Off Nagar Road, Pune - 411014

Phone: 020-66057500 E-mail: investor@zensar.com Website: www.zensar.com

CIN: L72200PN1963PLC012621

## REMINDER - SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In furtherance to our public notice dated July 24, 2025, with respect to one-time special window offered pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, we hereby reiterate that the special window for re-lodgment of transfer requests in case of physical shares is open till January 06, 2026. This special window facility is applicable to those cases where original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned/unattended or rejected due to deficiencies in documents, process or any other reason. Please note that, the re-lodged requests for transfer of equity shares shall be processed only in dematerialized form, subject to successful verification of documents. Eligible shareholders may submit their requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at KFin Technologies Limited, Tower - B, Plot No 31 and 32, Selenium Building, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032.

For Zensar Technologies Limited

**Company Secretary** 

Place: Pune **Anand Daga** 

∞RPG

## MPDL LIMITED

Regd. Office: 11/7, Mathura Road, Sector 37, Faridabad HR 121003 Corp. Office: Unit No.12, GF, Magnum Tower-1 Sector - 58, Golf Course Extn. Gurugram-122011 HR Phone: 0124- 4222434-35 Email: isc\_mpdl@mpdl.co.in Website: www.mpdl.co.in, CIN: L70102HR2002PLC097001

## NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (hereinafter called as "AGM") of MPDL Limited ("the

Company") will be held on Monday, September 29, 2025 at 03:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM to transact the business as set out in the AGM Notice dated August 13, 2025.

The Company has sent the Notice of the AGM and Annual Report including Annual Financial Statements for the Financial Year 2024-25, through electronic mode to the Shareholders whose e-mail address are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent or with the Depository Participants in accordance with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circulars No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Copy of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2024-2025 is also available on the Company's website www.mpdl.co.in, website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting@nsdl.com. In case shareholders request for the same, physical copy of the Annual Report will be sent to them. The Dispatch of the Notice of the AGM through emails has completed on Thursday, September 04, 2025.

Members are provided with the facility to attend the AGM through electronic platform provided by NSDL. Members are request to visit www.evoting@nsdl.com and access the shareholders/members login by using the remote e-voting

## Instruction for Remote E-voting and E-voting:

Date: September 04, 2025

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, & Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations"), the members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM using electronic voting system ("Remote e-voting") provided by NSDL Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on Monday, September 22, 2025 ("Cut-off date") can cast their votes via remote e-voting facility of NSDL through www.evoting@nsdl.com. Aperson whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owner maintained by Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of the Members shall be in proportion of the paid up value of their shares in the total Voting capital of the Company as on Cut-Off date.
- The remote e-voting period will commence from Friday, September 26, 2025 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, September 28, 2025 at 5.00 P.M (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.
- Information and instructions comprising manner of voting, including remote e-voting by members holding shares in dematerialized form, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM as well as in the email sent the members by NSDL
  - Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report through electronic means and before the Cut-off date may obtain the User ID and password by sending a request to the Company at complianceofficer@mpdl.co.in or to NSDL at evoting@nsdl.co.in. Members attending the AGM through VC/OAVM but who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to
- cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM through VC/OAVM, however they shall not be eligible for e-voting at the AGM. The Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.mpdl.co.in. Please refer the 'e-voting user
- manual for members available to the downloads section of the website of NSDL i.e. www.evoting@nsdl.com. Any member who have any query/grievances connected with the e-voting can contact Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com or call on 022-48867000. For permanent registration/updation of the email addresses, members may send the request with the relevant Depository

Participant in case of shares held in electronic form with the company's Registrar & Share Transfer Agent Limited i.e. M/s MCS Share Transfer Agent Limited in case shares are held in physical form. Members holding shares in physical form may send an email request at the email id admin@mcsregistrars.com along with the scanned copy of Form ISR-1 and self attested copy of PAN Card and Aadhaar Card, etc. Further also send the original copy to M/s MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180, 3rdFloor, DSIDC Shed Okhla Industrial Area, Phase -I, New Delhi 110020, The said Form ISR-1 is also available on the website of the Company at www.mpdi.co.in. Further, the Shareholders are also requested to carefully read the Notes set out in the AGM Notice for more details on the

process to be followed for joining the AGM and manner of casting vote, etc. For MPDL Limited

Date: 05.09.2025 Bhumika Chadha Place: Gurugram Company Secretary

## MONIND LIMITED Regd. Off.: Block-7, Room No. 78, Deendayalawas, Kabir Nagar, Raipur, Chhattisgarh - 492099

CIN: L51103CT1982PLC009717; Corp Office:, 11, Monnet House Masjid Moth, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048 Phones: 011-29223112, Ph.: +91-877-0344104 E-Mail: isc\_mind@monnetgroup.com website:www.monnetgroup.com

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of Monind Limited is scheduled to be held on Monday, September 29, 2025 at 12:30 P.M. through Video Conference ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM to transact the business as set out in the AGM Notice dated August 13, 2025. The Company has sent the Notice of the AGM and Annual Report including Annual Financial Statements for the Financial Year

2024-25, through electronic mode to the Shareholders whose e-mail address are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent or with the Depository Participants in accordance with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circulars No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Copy of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2024-2025 is also available on the Company's website www.monnetgroup.com, website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting@risdl.com. In case shareholders request for the same, physical copy of the Annual Report will be sent to them. The Dispatch of the Notice of the AGM through emails has completed on Thursday, September 04, 2025.

Members are provided with the facility to attend the AGM through electronic platform provided by NSDL. Members are request to visit www.evoting@nsdl.com and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credential provided to them.

# Instruction for Remote E-voting and E-voting:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, & Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations"), the members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM using electronic voting system ("Remote e-voting") provided by NSDL. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on Monday, September 22, 2025 ("Cut-off date") can cast their votes via remote e-voting facility of NSDL through www.evoting@nsdl.com. A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owner maintained by Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of the Members shall be in proportion of the paid up value of their shares in the total Voting capital of the Company as on Cut-Off date.
- The remote e-voting period will commence from Friday, September 26, 2025 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, September 28, 2025 at 5:00 P.M (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.
- Information and instructions comprising manner of voting, including remote e-voting by members holding shares in dematerialized form, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM as well as in the email sent the members by NSDL

Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report through electronic means and before the Cut-off date may obtain the User ID and password by sending a request to the Company at cs.compliance@monnetgroup.com or to NSDLat evoting@nsdl.co.in. Members attending the AGM through VC/OAVM but who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to

attend the AGM through VC/OAVM, however they shall not be eligible for e-voting at the AGM. The Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.monnetgroup.com Please refer the 'e-voting user manual' for members available to the downloads section of the website of NSDL i.e. www.evoting@nsdl.com Any

cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to

member who have any query/grievances connected with the e-voting can contact Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com or call on 022-48867000. For permanent registration/updation of the email addresses, members may send the request with the relevant Depository

Participant in case of shares held in electronic form with the company's Registrar & Share Transfer Agent Limited i.e. M/s MCS Share Transfer Agent Limited in case shares are held in physical form. Members holding shares in physical form may send an email request at the email id admin@mcsregistrars.com along with the scanned copy of Form ISR-1 and self attested copy of PAN Card and Aadhaar Card, etc. Further also send the original copy to M/s MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180, 3rdFloor, DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase -I, New Delhi 110020. The said Form ISR-1 is also available on the website of the Company at www.monnetgroup.com

Further, the Shareholders are also requested to carefully read the Notes set out in the AGM Notice for more details on the process to be followed for joining the AGM and manner of casting vote, etc. For Monind Limited

Ritika Ahuja

Company Secretary

Date: 05.09.2025

New Delhi

Ankur Jain Company Secretary

epaper.financialexpress.com

Place: New Delhi

For India Glycols Limited

# स्वास्थ्य विभाग में 220 नये चिकित्सक किये तैनात : धन सिंह

देहरादून। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 220 नये चिकित्सकों को प्रथम तैनाती दे दी गई है। इन सभी चिकित्सकों को विशेष रूप से प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों की चिकित्सा इकाईयों में तैनात किया गया है, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को जनसुलभ के साथ ही अधिक सुदृढ़

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत कर रही है ताकि आम जन को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सत्यों,



चिकित्सकों को सूबे के ऐसे सुदूरवर्ती चिकित्सा इकाईयों में तैनाती दी गई है जहां पर लम्बे समय से पद रिक्त चल रहे थे। जिसमें प्रमुख रूप से जनपद चमोली के दुरस्थ चिकित्सा इकाईयों देवाल, ग्वालदम, थराली, गैरसैण, मेहलचौरी, जोशीमठ, माईथान, उत्तरकाशी में हर्षिल, गंगोत्री, टिकोची, डुंडा, मोरी, बलडोगी, दिवली, चिनियालीसैड, भटवाडी. जानकीचट्टी, मानपुर, रैथल, बड़कोट, टिहरी लम्बगांव, नंदगांव, थत्यूड़, हिण्डोलाखाल,

अदालीखाल, बीरोंखाल, रिखणीखाल, कलालघाटी, चैलसैण. पाबों, तिरपालीसैण, सैंजी, पौखाल, बैजरों, घण्डियाल, थानमासौं के साथ ही अन्य दुरस्थ केन्द्रों में भी तैनाती दी गई है। इसी प्रकार जनपद पिथौरागढ़ में थल, धारचूला, बड़ालू, जाखपुराण, गणाई, मुनस्यारी, बेरीनाग, डीडीहाट, तेजम, मुवानी तथा जनपद चम्पावत में सिपटी, भौन, बाराकोट उप जिला चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय चम्पावत, जबकि बागेश्वर में कपकोट, बैजनाथ. फरसाली. प्रकार अल्मोड़ा में देघाट.

बदियाकोट. उप जिला चिकित्सालय बागेश्वर में तैनाती दी गई है। इसी काकडीघाट भिकियासैण, दनिया, नैल, चौखुटिया, भैसियाछाना, भतरौंजखान, जैंती, द्वाराहाट, ताड़ीखेत, नैनीताल में गेठिया, पदमपुरी, बेतालघाट, ज्योलीकोट, गरमपानी, धारी, मालधनचौड. पहाडपानी. मुक्तेश्वर सहित प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में वर्षों से रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती दी गुई है। इन चिकित्सकों की तैनाती से जहां सुदूरवर्ती इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होगी वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। जिससे सरकार का अंतिम गांव तक गुणवत्तापूर्ण

स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का

संकल्प भी सिद्ध होगा।

दिव्यांग से विवाह पर 50 हजार होगी प्रोत्साहन राशि जाएंगे वृद्धाश्रम : मुख्यमंत्री

🗲 सीएम धामी ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से किया संवाद

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्य सेवक संवाद के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लांच किया एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की 5वीं किश्त

का ऑनलाइन भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25 हजार रूपये से बढाकर 50 हजार रूपये किया जायेगा। दिव्यांग छात्रवत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 वृद्धाश्रम

कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में

जायेगी। मुख्यमंत्री आवास मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मख्यमंत्री पष्कर सिंह ने वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजनों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सबके आशीर्वाद से ही उन्हें राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि इस संवाद के पीछे भी यही मंतव्य था कि वो सबकी समस्याओं, आवश्यकताओं को सीधे तौर पर जान सकें, जिससे उनके समाधान के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जा सके। कहा कि कई बार सरकार के स्तर पर नीतियां और योजनाएं तो बन जाती हैं, परन्तु उनका वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब वे जमीनी स्तर तक पूरी छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा पारदर्शिता और ईमानदारी से अधिक आयु के 86 हज़ार से अधिक पहले ही देहरादून में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहें हैं। प्रधानमंत्री ने ही सर्वप्रथम अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपर्ण कार्य किया।आज प्रधानमंत्री के नेतत्व में दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, भारत अभियान. एडीआईपी दीनदयाल योजना. योजना, दिव्यांगजन पुनर्वास दिव्यांगजन स्वालंबन योजना तथा दिव्यांगजन छात्रवत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु ठोस भी प्रदान की जा रही है। आज इस योजना से जुड़े सॉफ्टवेयर के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार लोकार्पण से योजना का लाभ द्वारा राज्य में 96 हज़ार से अधिक पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है। जहां एक ओर 18 वर्ष से

सरकार ने उनकी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने का कार्य किया है। मख्यमंत्री धामी ने कहा कि

मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है, वहीं 18 वर्ष से कम आयु के 8 हजार से अधिक दिव्यांग बच्चों के भरण-पोषण एवं देखभाल हेतु प्रतिमाह 700 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में किष कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रौतेली पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 12 सौ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही, 4 फुट से कम ऊँचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन के माध्यम से प्रतिमाह 12 सौ रुपए भी प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दिव्यांग विवाह प्रोत्पाहन योजना के

को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन दिव्यांग बच्चों को समय पूर्व हस्तक्षेप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार आने वाले समय में ऐसे दिव्याशा केंद्र राज्य के समस्त जनपदों मख्यमंत्री ने कहा कि आज इस लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में टांसफर की जा रही है। इसके साथ ही सरकार राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था भी सुदृढ कर रही है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादन. अल्मोडा और चम्पावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया है।

उत्तराखंड में अब नहीं होने

देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को देशभर से लगातार

पर पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और अपात्र लोगों के नाम जोड़कर सुनियोजित तरीके से वोट चोरी की जा रही है। कांग्रेस की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई तकनीकी भूल नहीं,

बल्कि लोकतंत्र को बंधक बनाने की

संस्थागत साजिश है और लोकतंत्र की पत्रकार वार्ता में कही।

सीधी हत्या है।यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सीडब्लूसी सदस्य गुरदीप सप्पल ने को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब इस गंभीर घोटाले की शिकायत चुनाव आयोग से की, तो आयोग ने जाँच के बजाय शिकायतकर्ताओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। संविधान ने चनाव आयोग को जनता के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन आज आयोग का खैया लोकतंत्र की रक्षा करने वाले संवैधानिक निकाय का नहीं, बल्कि सत्ता की कठपुतली जैसा है। सप्पल ने कहा कि वोट चोरी को नियमित प्रक्रिया बताना न केवल बेशर्मी है, बल्कि जनता के अधिकारों पर सीधा डाका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पष्ट करना चाहती है कि यह अभियान केवल प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गाँधी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। बिहार से लेकर उत्तराखंड और देश के हर कोने में कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाली ताकतों के खिलाफ यह हमारी साझा लडाई है और हम इसे किसी भी कीमत पर वोट चोरी को सफल नहीं होने देंगे। सप्पल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहल गाँधी के द्वारा वोट चोरी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरा वोट-मेरा अधिकार अभियान चलाया और राज्य के सभी 99 नगर निकायों में व्यापक जनसंपर्क और जनजागरण किया। लक्ष्य था कम से कम 2000 आरटीआई डालना, लेकिन अधिक आरटीआई कांग्रेस के पास

कहा कि इसके बावजूद आयोग की तरफ से अब तक सिर्फ 136 जवाब आए हैं, वे भी टालमटोल और अस्पष्टता से भरे हुए। यह जनता को गुमराह करना और सूचना के अधिकार कानून का खुला उल्लंघन है। कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर–घर जाकर मतदाता सुची का सत्यापन किया और जिनके नाम गायब पाए गए, उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दो महीने चले इस अभियान में लाखें मतदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद हुआ और सैकडों बैठकों व प्रेस वार्ताओं से व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित हुई। निर्वाचन आयोग से जानकारी प्राप्त करने हेतु लगभग 2,500 आरटीआई आवेदन दायर किए गए,लेकिन केवल 136 जवाब मिले। जिनमें से अधिकांश में जानकारी को अन्य तौर पर सचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। अनेक नागरिक जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, उनके नाम निकाय चुनावों की सूची से हटा दिए गए। संविधान का अनुच्छेद 326 स्पष्ट करता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान का अधिकार रखता है। फिर भी, देहरादून नगर निगम चुनाव में अगस्त 2024 की सूची से लगभग 96,000 नाम हटाए गए। बाद में संख्या बढ़ाई गई, लेकिन चुनाव से मात्र तीन दिन पहले 32,000 नाम दोबारा काट दिए गए। ग्रेसे कदम पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खडे करते हैं। करण माहरा ने कहा कि मतदाता सची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट है।लेकिन निकाय चनावों में धांधली उजागर होने के बाद भी आयोग ने गंभीरता नहीं जनता के अपार समर्थन से 2500 से दिखाई।पंचायत चुनावों में गंभीर

त्रुटियाँ सामने आईं, जो लोकतंत्र के

# वोट चोरी में चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत : सप्पल

देंगे वोट चोरी : माहरा

शिकायतें मिल रही हैं कि बड़े पैमाने

# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड -द्वितीय,रुद्रपुर उधमसिंह नगर, 33/11 के.वी. उपसंस्थान, नियर नवोदया स्कूल, रुद्रपुर ईमेल-eeedd2\_rdr@rediffmail.com Tephone: 9917474748

# विद्युत बाधित सूचना

विद्युत वितरण खण्ड-2 रूद्रपुर के अधीन सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना है कि विद्युत वितरण उपखण्ड, रूद्रपुर-2 के अन्तर्गत 3/11 केवी उपसंस्थान दानपुर से निकलने वाले 11 के0वी0 काशीपुर इण्डिस्ट्रियल पोषक पर ACSR Bare Conductor को Insulated Covered Conductor (AAAC) में बदलने एवं 11 के0वी0 दानपुर पोषक में 11 के0वी0 पोषको का शटडाउन किया जाना प्रस्तावित है—

l	क्र0सं0	33/11 केवी उपस्थान का नाम	पोषक का नाम	दिनांक	समय
	1		11 के0वी0 भूरारानी पोषक	07.09.2025 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित
	2	33/11 केवी उपस्थान दानपुर	11 के0वी0 काशीपुर इण्डस्ट्रियल पोषक		
	3		11 कें0वी0 दानपुर पोषक		

अतः उपरोक्त तिथि एवं समय के अनुसार विद्युत वितरण उपखण्ड, रूद्रपुर-2 के अधीन 33/11 केवी उपसंस्थान दानपुर से निकलने वाले प्रपोक्त पोषकों से जुड़े हुए उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति प्रातः ०९:०० बजे से सांयः ०६:०० बजे तक पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित होगी।

असुविधा के लिए खेद है

'राष्ट्रहित में बिजली बचायें

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), रुद्रपुर

सं. 3095 दि. 04-09-2025

## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, तिकोनिया, नैनीताल रोड, हल्द्वानी ( नैनीताल ) 263139 फोन एवं फैक्स: 05946-220172, E-mail:eddhld@yahoo.com

# निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुभवी, प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त, आयकर, जी०एस०टी०, ई०पी०एफ० में पंजीकृत एवं शासन व विभाग में पंजीकृत ठेकदारों / फर्मों / एजेन्सियों से निम्न कार्य / सामग्री आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदायें पृथक-पृथक दो भागों में दिनांक 23.09.2025 के अपराहन 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सायं 03.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता या उनके मनोनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा के प्रपत्र भाग-1 में अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिभूति धरोहर राशि जो एन०एस०सी० / एफ०डी०आर० के रूप में बंधक और सम्बन्धित कार्य का अनुभव अभिलेख एवं ई०पी०एफ० व जी०एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण आदि संलग्न होना अनिवार्य होगा तथा दूसरे मुहरबन्द भाग में निविदा प्रपत्र दरें एव अन्य शर्ते होनी चाहिए। धरोहर राशि तथा अन्य अभिलेखों के अभाव में निविदा का दूसरा भाग किसी भी दशा में नहीं खोला जाएगा। कटी फटी एवं शर्तें रहित निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदा के साथ दरों की वैद्यता रू० 10.00 के स्टाम्प पर देना आवश्यक होगा।

	क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का विवरण	घरोहर धनराशि	निविदा सं0	निविदा की घनराशि
	1	विद्युत वितरण उपखण्ड—प्रथम, सुभाषनगर, में 33 के०वी० उप—संस्थान कुँवरपुर गौलापार के अन्तर्गत विभिन्न गाँव के अन्तर्गत 100 नग अतिरिक्त पोल लगाये जाने का आपूर्ति सहित कार्य। <u>मद—ओ०एण्डएम०</u>	15500.00	EDD(T)H- 15/2025-26	250.00 + 45.00 (18% GST)
	2	विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, सुभाषनगर, हल्द्वानी के अन्तर्गत नैनीताल हल्द्वानी के मुख्य मार्ग में हाईडिल गेट एवं कॉल टैक्स में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थापित 400, 250 एवं 100 के0वी0ए0 परिवर्तकों को स्थानान्तरित करने का आपूर्ति सहित कार्य। <u>मद-ओ०एण्डएम0</u>	19000.00	EDD(T)H- 16/2025-26	250.00 + 45.00 (18% GST)
	3	विद्युत वितरण उपखण्ड—प्रथम, सुभाषनगर, हल्द्वानी में सुरक्षा की दृष्टि से एल0टी0 एवं एच0टी0 लाईनों के कार्यों के निस्पादन हेतु टी0एण्डपी0 उपकरणों की आपूर्ति। <u>मद—ओ०एण्डएम0</u>	8000.00	EDD(T)H- 17/2025-26	250.00 + 45.00 (18% GST)

निविदा प्रपत्र जी0एस0टी0 रजि0 प्रमाण पत्र उपलब्ध करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22.09.2025 तक निविदा की राशि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, हल्द्वानी के नाम बैंक ड्राफ्ट से भुगतान किये जाने के उपरान्त प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह निविदा को निरस्त कर सकते हैं। उक्त तिथियों में अवकाश होने की दशा में निविदायें अगले कार्य दिवस पर बेची व खोली जायेंगी।

Customer Care Toll Free No. 1912

संख्या: 3784 दिनांक: 04.09.2025

नोट- नोटिस बोर्ड।

''राष्ट्रहित में बिजली बचायें''

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ( नगर ) हल्द्वानी

### लब्ध हैं। हजारों नागरिकों ने स्वतंत्र लिए चिंताजनक हैं मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न योजनाओं के लिए 58.43 करोड़ की मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत घनसाली बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण हेतु 2.66 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में टर्नर रोड, पोस्ट ऑफिस मार्ग एवं मोहब्बेवाला के आंतरिक मार्गों में हॉट मिक्स इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण सहित मार्ग निर्माण के कार्य हेतु 4.49 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया है इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस लाईन रेसकोर्स देहरादून में टाईप द्वितीय (ब्लॉक-ए) के 120 आवासों के निर्माण हेतु भी 51.28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन की स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा श्रीमती शान्ता टंडन पत्नी स्व. ब्रहम सरन टंडन, निवासी गिरीताल रोड, वार्ड न. 1 हैविल्स शोरूम के सामने, पोस्ट ऑफिस काशीपुर, जनपद उधम सिंह नगर को 14 जून 2017 से 14 अक्टूबर 2022 तक 16,000 प्रतिमाह तथा 14 अक्टूबर 2022 से 20,000 प्रतिमाह बकाये सहित 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

### क्माऊ-गढ़वाल को जोड़ने वाले पुल की मजूरी पर सीएम का जताया आभार

देहरादून। सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति ने विधायक यमकेश्वर रेनू बिष्ट के नेतृत्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर पुल निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है। समिति ने कहा है कि गढ़वाल-कुमांऊं को जोड़ने वाला यह पुल 20 सालों से लंबित था। अब मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इससे क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलने की उम्मीद जगी है। समिति ने मुख्यमंत्री से शीघ्र पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन भी करने का अनुरोध किया है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी भी उपस्थित थे।

### निष्ठा और समर्पण भाव के साथ कार्य करते रहें शिक्षक : राज्यपाल

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने 'शिक्षक दिवस' के अवसर पर राज्य के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। राज्यपाल ने इस अवसर पर महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर शिक्षकों की कठिन मेहनत, समर्पण और अमुल्य योगदान को सम्मानित करने तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है। देश के विकास और प्रगति में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन से ही हमारे बच्चे और युवा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनते हैं। राज्यपाल ने शिक्षकों से निष्ठा और समर्पण भाव के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।

### अमृता विश्वविद्यापीठम शीर्ष 10 विवि और मेडिकल कॉलेर्जा में शामिल

**देहरादून⁄हरिद्वार।** अमृता विश्व विद्यापीठम (अमृता विश्वविद्यालय) ने एक बार फिर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में देश के श्रेष्ठ संस्थानों में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमृता को भारत के सभी विश्वविद्यालयों में 8वां और मेडिकल कॉलेजों में 9वां स्थान मिला है, जिससे यह दोनों श्रेणियों में देश के शीर्ष 10 में शामिल हो गया है। इसके साथ ही अमृता ने 2017 से लगातार आठवें वर्ष टॉप 10 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाने का गौरव प्राप्त किया है। 2003 में स्थापित अमृता, भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सबसे युवा संस्थान भी है, जिसके 10 परिसरों के माध्यम से यह देशभर में सिऋय है। इस वर्ष की मजबूत रैंकिंग का एक प्रमुख कारण अमृता के व्यापक वैश्विक सहयोग हैं। विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो सहित विश्वभर के 200 से अधिक अग्रणी संस्थानों के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान साझेदारियां की हैं।

हाल ही में चयनित 220 चिकित्सकों रूद्रप्रयाग में मनसूना, जखोली, ग्वाड,

### 💶 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड सी आई एन: L24111UR1983PLC009097

पंजीकृत कार्यातयः ए-1, इंस्टिय्स एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड दूरभाषः +91 5947 269000/269500; फैक्सः +91 5947 275315/269535 ई-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com; वेबसाइट www.indiaglycols.com 41वीं वार्षिक आम बैठक,

ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 4 1वीं वार्षिव आम बैठक (''ए जी एम'') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को प्रात: 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''**वी सी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओ ए वी एम'') सुविधा** के माध्यम से सूचना में निर्धारित . कारोबार के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागु प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, २०१५ (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये परिपन्न सं. 20/2020, 02/2021, 19/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 एवं 09/2024 दिनांक 5 मई, 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसंबर 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर 2022, 25 सितंबर, 2023, एवं 19 सितंबर, 2024 परिपन्न संख्या 14/2020 और 17/2020, दिनांव 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020, क्रमशः के साथ मिलकर पढें। (सामृहिक रूप से संदर्भित''एम र्स ! परिपन्नो'') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपन्न सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/1 सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी, सीआईआर/2023/4, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 एवं सेबी/एवओ/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 क्रमशः 12 मई, 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023, 7 अक्टूबर, 2023 एवं 3 अक्टूबर, 2024 (''से बी परिपत्रो") के अनुपालन में आयोजित की जाएगी। ए जी एम का अनुमानित स्थल पंजीकृत कार्यालय अर्थात् ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड होगा। एम सी ए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 41वीं ए जी एम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (समेकित वित्तीय विवरण सहित), उस पर लेखापरीक्षको एवं बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, उन सभी सदस्यों को केवल ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई–मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (''डी पी'') के पास पंजीकृत हैं और इसे भेजने का कार्य गुरुवार, 4 सितंबर, 2025 को पूरा कर लिया गया है। इसके अतिदित, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुपालन में, उन समी शेयरधारकों को एक पत्र भेजा गया है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें नोटिस और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लि वेब-लिंक, सहित सटीक पाथ प्रदान किया गया है। 41वीं ए जी एम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.indiaglycols.com. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एन एस डी एल'') की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u>, और स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण जिन्हे 41वीं ए जी एम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती हैं. वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सचिव को compliance.officer@indiaglycols.com पर लिख सकते हैं।

इसके अलावा, सदस्यगण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक से सीधे प्रा कर सकते हैं:-

http://www.indiaglycols.com/wp-content/uploads/annual-report-2024-25.pdf सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है वे नीचे दिये गये निर्देशों का पालन करके वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु ई-मेल का पंजीकरण कराएं:

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदस्य का नाम, फोलियो नम्बर एवं सदस्य का पता, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की प्रति वर्णित करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की कॉपी के साथ लिखित अनुरोध आर टी ए, अर्थात एम सी एस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 179-180, तृतीय तल, डीएसआईडीसी शेड, ओखल इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 या ई-मेल: admin@mcsregistrars.com के माध्यम से भेजकर अपना ई-मेल पता

डिमैट धारिता

डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे भौतिक धारिता के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करके क्लाइंट मास्टर कॉपी या समेकित डिमेट खाता विवरण की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी के साथ फोलियो नं. के स्थान पर 16 अंकों वाली डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

इसके द्वारा अधिनियम की धारा 91 के साथ-साथ इसके तहत लागू नियमों और सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 42 के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफ बुक बुधवार, 24 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी, ताकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश मुगतान और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित की जा सके। कंपनी के निदेशक मंडल ने 16 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रत्येक इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य का 100% लाभांश की सिफारिश की थी। उस समय, प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य 10/– रुपये था। इसके रत अपनी बैठक में पत्थे रुपये) के अंकित मल्य वाले इक्रिटी शेयर को 2 (दो) इक्रिटी शेयरों में, प्रत्येक 5/- रुपये (केवल पांच रुपये) के अंकित मूल्य में विभाजन/स्प्लिट को मंजूरी दी, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन था और यह मंजूरी 22 जुलाई, 2025 को प्राप्त की गई। तदनुसार, यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लामांश को ए जी एम में घोषित किया जाता है, तो शेयरधारको संशोधित अंकित मूल्य अर्थात 5/- रुपये प्रति इक्रिटी शेयर के 100% के बराबर लाभांश प्राप्त होगा। लाभांश का भूगतान कंपनी की आगामी ए जी एम की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सभी को किया जाएगा जो (क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले लाभकारी मालिक हैं, जैसा कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए लाभकार्र स्वामित्व डेटा के अनुसार, मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को है, (ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले जो कंपनी/आरटीए, 179–180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1 नई दिल्ली-110020 के पास मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को या उससे पहले दर्ज सभी वैध शेयर हस्तांतरण या स्थानांतरण अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद है।

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यधासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसरण में अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कम्पनी द्वारा 'मुगतान या वितरित किया जाने वाला ला'मांश शेयरधारको की ओर करयोग्य होगा, इसलिए कम्पनी को लाभांश का भगतान करते समय निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती करनी होगी। विभिन्न श्रीणियों के लिए निर्धारित दर्श हेतु कृपया वित्त अधिनियम, 2020 एवं उसके किये गये संशोधनों के साथ ही ई-मेल के माध्यम से पहले से सदस्यों को भेजे गये विस्तृत पत्राचार का अवलोकन करें जो कि <u>https://www.indiaglycols.com/wp-content/uploads/Communication-in-</u> respect-to-Deduction-of-Tax-at-source-on-Dividend-dated-20.08.2025.pdf पर उपलब्ध है। एम सी ए सामान्य परिपत्र 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के अनुसरण में कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस का उपयोग करके सदस्यों के लाभांश सीधे उनके बैंक खातों में जमा करने के निर्देश हैं इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, सेबी ने यह अनिवार्य कर दिया है कि जो सदस्य भौतिक रू में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने अपने फोलियो में पैन और के वाई सी विवरण अपडेट नहीं किया है वे अन्य बातों के अलावा, अपने फोलियों में पैन एवं के वाई सी विवरण अपडेट करने के बाद ही केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के पात्र होंगे। तद्रसार, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट <u>www.indiaglycols.com</u> पर उपलब्ध निर्धारित पपनों में आर ही ए के पास अपना पैन एवं के वार्ड सी विवरण सपलक्ष /अपडेट कराएं। इलेक्टॉनिक पारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना के वाई सी विवरण एवं बैंक अनिवार्यता अपडेट कराएं।

इसके अलावा. अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित उसके अधीन लागू नियमों और सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों को ए जी एम की सूचना में निष्पदित किये जाने वाले कारोबार के संबंध में ए जी एम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग और ए जी एम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है और इस प्रयोजन के लिए कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग को सुगम बनाने हेतू एन एस डी एल को नियुक्त किया है। ए जी एम की सूचना में अन्य बातों के अतिरिक्त रिमोट ई-वोटिंग एवं ए जी एम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं पद्धति तथा भौतिक प्रारूप या डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी/डी पी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल्स के संबंध में निर्देश के साथ ए जी एम में शामिल होने के निर्देश दिये गये है। सदस्यों का रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के आनुपातिक होगा। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) 41वीं ए जी एम की सूचना में निर्धारित कारोबार का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग से किया जा सकता है; (ख) रिमोट ई-वोटिंग अविध शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को प्रात: 9.00 बजे प्रारंभ होगी: (ग) रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी; (घ) रिमोट ई-बोटिंग/ई-बोटिंग के लिए सदस्यों के अधिकार की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 है; (ङ) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-बोर्टिंग की अनुमति नहीं होगी। (च) 41वीं ए जी एम के दौरान ई-बोर्टिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; (छ) सदस्यगण जिन्होंने ए जी एम से पूर्व रिमोट ई-बोर्टिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट दे दिया है, वे भी वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से ए जी एम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें 41वीं ए जी एम के दौरान दोबारा अपना वोट देने का अधिकार नहीं होगा; (ज) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् <mark>मंगलवार, 23 सितंबर, 2025</mark> को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज ट्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग एवं ए जी एम में ई-वोटिंग के लिए हकदार होंगे; (झ) ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिकली सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात **मंगलवार, 23 सितंबर, 2025** के शेयर धारण करता है, वह <u>evoting@nsdl.com</u> या <u>admin@mcsregistrars.com</u> पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है; और (ञ) किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगप www.evoting.nsdl.com के 'डाउनलोड' सैक्शन पर सदस्यों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एन एस डी एल, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 से ई-मेल: evoting@nsdl.com पर या फोन नं. 022 48867000 पर सम्पर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। सदस्यगण ई-मेल आईडी <u>compliance.officer@indiaglycols.com</u> पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं और मुख्य कार्यालय प्लॉट नं. 2-बी, सैक्टर-126, नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश को भी लिख सकते हैं।

कम्पनी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए श्री आशीष सक्सेना (सी.पी. नं. 7096), आशीष सक्सेना एंड कं., कम्पनी सचिव, गाजियाबाद को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

कते इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड स्थान : नोएडा, उ. प्र. दिनांक : 4 सितंबर, 2025

अंकुर जैन